

# हादरसा सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गथुम, आसाम

काहिलिपारा, गुवाहाटी - 781019

दानारि सोलोंथाइयारि फानजामुथि

मे	सम	मंगल	बुध	बिस्थि	सुकुर	सुनि	रबि
<b>2020</b> 					1 बन्द सान (मे दिवस)	2 थाखो सान	3 बन्द सान
	4 थाखो सान	5 थाखो सान	6 थाखो सान	7 बन्द सान (बुद्ध पुर्णिमा)	8 थाखो सान आरो फालिथाइ सान (बिन्द बन्ती)	9 थाखो सान	10 बन्द सान
	11 थाखो सान आरो फालिथाइ सान (हाडुडारि बिगियान आरो बिरोंदाकिन सान)	12 थाखो सान	13 थाखो सान	14 थाखो सान	15 थाखो सान	16 थाखो सान	17 बन्द सान
	18 थाखो सान	19 थाखो सान	20 थाखो सान	21 थाखो सान	22 थाखो सान	23 थाखो सान	24 बन्द सान
	25 बन्द सान (ईर-उल-फिखर)	26 थाखो सान	27 थाखो सान	28 थाखो सान	29 थाखो सान	30 थाखो सान	31 बन्द सान

### गाहाय गुदि थाखो ( से थाखोनिफ्राय बा सिम )

#### थाखो बादियै फरा राननाय

आयदा	सेथि	नैथि	थामथि	ब्रैथि	बाथि
राव	असे लोगो	सासे गियानि गध'सा मुफुरा गेलेबाय फुटबल	रेसुमेनि लाइजाम दावराहनि जोनोम सल'	दै आधि गोलाव	सलिस कला सल 30 रा'भा ब्रय अखामेथिनी कीथि बिबल खुनुनि मेयाइ
सानखाथि	दानख'नाय 10 निफ्राय 20 सिम अनजिमा सानखाथि	खिन्थाइ दाजाबनाय	दाजाबनाय लाउथाइ	बेंखन सानजाबनाय	राननाय बोखावखोन्दो आरो दशमिक बोखावखोन्दो
इंराजी	Animal World	Traffic Lights Keep Healthy	A Glass of Lemonade	The Letter	Let's Write a Story
आबहावा फरायसं			जोधोन जोनि फोरखो जोनि फसंथानफोर	लाइफं आरो आबहावा जिब आरो आबहावा बायदि बायदि आबहावानि लाइफं	बोथोर आदारनि गोनाथि जिडखानायनि आदब

थाखो सेनिफ्राय बासिम गाहायाव होनाय मावफारिखौ फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थोरफो बादियै दाननि फराजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिना सर' खालामहो-  
सावस्रि आरो देहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि ।

- मोनथाम समान सिरियाव गसंनाने मार्च-पाष्ट ( कदम-तल ) खालामगोन ।
- गसंनाने खेब जि मोखांजों आरो खेबसे उनथिजाय फावसायगोन ।
- जानायनि सिगां आरो जानायनि उनाव साबोनजों आखाइ सुनायनि सर' खालामनाय ।

#### आरिमु आरो सिल्प सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि

- जि सुथाबनाए आरो लेखा बिलाइ हानाने खिन्थाइ बानायगोन ।
- आरज, खुगामेथाइ, जायगानि मेथाइ बायदि खननो सर' खालामगोन ।

### मावफारि आरो फालिथाइ सान

8 मे: कबिगुरु रबिन्द्रनाथ ठाकुरनि जोनोमसानजों लोब्बा लाखिना विधानि जिड आरो सानखिनि सोमोन्दै सावरायनाय। फरायसाफोरजों रबिन्द्र संगीत, मोसानाय आरो फावथाइनि हाबाफारि खुंगोन ।

11 मे: जिरायनायनि उनाव जौगा गुदि थाखोनि फरायसाफोरनि गेजेराव बिगियाननि कुइज हरखाव बिबुंथि एबा दान्थे-बिदान्थे बादायलायनाय खुंगोन। बेफोरनि सुमोनथाइखौ फोरोंगिरिया खालामगोन ।

जायगानि गोरों सुबुंखौ लाफानाने बे हाबाफारिखौ सामलायगोन आरो जर'खा सुबुंनि दारे बिगियाननि अनसायजानाय बिबुं थिनि आफाद खुंगोन ।

हाडुडारि बिगियान आरो बिरोंदाकिन सान

थाखो सान -	23
रबिबार -	5
गुबुन बन्द सान -	3
गासै सान -	31
(दाननि फालिथाइ सान - 2)	

### जौगा गुदि थाखो ( द'निफ्राय थाखो दाइनसिम )

#### थाखो बादियै फरा राननाय

आयदा	द'थि	स्निथि	दाइनथि
राव	लावखार मेथाइ सोरानि लामा	सरकार जालाय मिसाइल सुबुंसा	बेसाद बिगियान फरायसंनाय सोमदोन
सानखाथि	गुदि दाथाइफोर रा' अनजिमा	हांखो आरो ख'ना आखाथिथाम आरो बेनि धोराम	बर्ग आरो बर्ग रोदा घन आरो घन रोदा
इंराजी	Uses of ICT	Kindness	Dokchory learns about the Panchayat
बिगियान	जोनि सोरगिदि सोलायनाय बिफों लाइफोफोरखो मिथिनि फे	बोथोर, बाहना आओ बाखवायव जिडआरि खानबाहोव भार, कर्तुंका आओ बायोपद हा	लाइफं आओ जिडआरिनि ररिखाथि जिडआरि दायाह आओ खामानि जिडआरिनि आजायनाय
समाज बिगियान	हालूर फरायसंनानि आगजु गोजान नोगोसि सोदोमधि सरकारनि सनखांथा आओ बायदि रोखोनि सरखा ।	मानसिया सोरजिनाय आबहावा आगु जारिमिनारि आसाम जोनि सोरगिदिनि हायाइ	फेपो लेपोस सायानि राखि रकबादि निडआव मेजेर खुनि बुनिबोनि बिदिना सुनुं सानर जीवन्तनि शिबोनि आओ सुनुं सानर जीवन्तनि सकारनि बिबल
हिन्दी	गावें की सैर हिन्दी देश के निवासी (गीत)	हार की जीत अपनों के पत्र	उससे न कहना भारतीय संगीत की एक झलक

थाखो द'निफ्राय दाइनसिम गाहायाव होनाय मावफारिखौ फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थोरफो बादियै दाननि फराजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिना सर' खालामहो-  
हाबा सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि

हाजों एबा थार्मकलनि हेफाजाबाव गावनि गामि, गावनि ओन्सोल, गावनि फरायसालिनि मानसावगारि थियारि खालामना सोलोंनाय ख'ना थियारि खालामगोन ।

#### सावस्रि आरो देहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि

- लांदां आखाइजों ब्याम खालामगोन ।
- जानायनि सिगां आरो जानायनि उनाव साबोनजों आखाइ सुनायनि सर' खालामनाय ।

#### आरिमु सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि

- फरायव थानाय जायखि जाया सल' आरो जाथाइनि बिथायाव फाव खालामगोन ।
- गेदेमा सुबुंफोरनि सावगारिनि चार्ट थियारि खालामगोन ।



- फोरोंगिरिया मोनफ्रोमबो थाखोनि मोनफ्रोमबो आयदानि मिजिथिनाय फोरोंनाय फिथाइ बादियै फोरोंनाय बिखाथि सामलायनंगोन ।
- जुनियारि हानाय गध'सानि थाखाय फोरोंगिरिया फराफोरखो बिसेरनि गोरुबनाय बादियै थियारि खालामना फोरोंगोन ।
- 'न' एबा फरायसालि साखोन-सिखोन खालामना लाखिनायजों लोगोसे खाथिखाला ओन्सोल आओ सोरगिदि साखोन-सिखोन लाखिनायनि बिबान गुबुनजों लोगोसे फोरोंगिरि आओ फरायसाफोरको फालिगोन ।
- लामायव थाबायनाय एबा बारनायाव गावनों संग्रं जानायजों लोगोसे गध'सा, बोराइ आओ जुनिया जोथोन लानो गोर्ना सुबुंनो हेफाजाव होनाया जोनि बिबान आओ मावनां ।
- फरायसालिनि सावस्रि खाथिनि सोमोन्दो जोथोन लानो थाखाय फरायसा संसद एबा गौधुमनिफ्राय सासे एबा सासेनि बांसिन फरायसालि सोद्रोमा थिसन, जेराव फरायसालिनि साखोन सिखोना सर्रेखा जाना थापो । वे बिधिबिध फरायसा सोद्रोमाखौ सम सम सोलाय-सोल' खालाम ।



• 2020 सोमोन्थाइ फोरोंगिरिया खाखो मे निफ्राय वा बाखोथिनि सानखाथि आओ इरिदि अयदानि मोनर फरायसालिनि बादायनाय जागेन ।  
 • सोमोन्थाइयारि फानजामुथियाय दान बादियै फरा राननाय दइबको मोनफ्रोमको छोडो सुमोन्थाइनि सोमोन्थे अयदानिबादियै थियारि फराफोरखौ फोरोंगिरिया गावनि खाथि बादियै फोरोंगिरिया ।  
 • मे दानय सानय खाखो यानि अनजिमा □ फावसाय निर । जुदि वे बिबल सान'नाय सानिबुंको सान जाओ अला फोरोंगिरिया गावनि खाथि बादियै खाखो सान'नाय आर्थु खालामगोन ।



# हादरसा सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गथुम, आसाम

काहिलपारा, गुवाहाटी - 781019

दानारि सोलोंथाइयारि फानजामुथि

जुन 2020	सम	मंगल	बुध	बिस्थि	सुकु	सुनि	रबि
 <p>कलागुरु बिष्णुप्रसाद राभा</p>	1 थाखो सान	2 थाखो सान	3 थाखो सान	4 थाखो सान	5 थाखो सान आरो फालिथाइ सान (मुलुगनां आबहावा सान)	6 बन्द सान (श्रीश्री माधव देबनि जीनीम सान)	7 बन्द सान
	8 थाखो सान	9 थाखो सान	10 थाखो सान	11 थाखो सान	12 थाखो सान	13 थाखो सान	14 बन्द सान
	15 थाखो सान	16 थाखो सान	17 थाखो सान	18 थाखो सान	19 थाखो सान	20 थाखो सान आरो फालिथाइ सान (कलागुरु बिष्णु राभा सान)	21 बन्द सान आरो फालिथाइ सान (मुलुगनां आबहावा सान)
	22 थाखो सान	23 थाखो सान	24 थाखो सान	25 थाखो सान	26 थाखो सान	27 थाखो सान	28 बन्द सान
	29 थाखो सान	30 थाखो सान					

### गाहाय गुदि थाखो ( से थाखोनिफ्राय बा सिम )

#### थाखो बादियै फरा राननाय

आयदा	सेथि	नैथि	थामथि	ब्रैथि	बाथि
राव	रेलगादि सिला आरो ना	बन्दानि जाला	सबरमती आसमाव गान्थो नैथि रोनाबल्लानि फे	फुंभिलि ओहोलायको मुलुगनां	गाबनि गुमु
सानखान्थि	सम	दानख 'नाय	खिन्थाइ दानख 'नाय	खारि बाहायनाय राननाय	बोखावखोन्दो आरो दशमिक बोखावखोन्दो खवा सुनाय
इंराजी	The Dog and the Red Van	Keep Healthy	Little Raindrops	A Golden Voice	The Joy of Living
आबहावा फरायसं			मन 'नि आबाद जौनि दावबाय दिङ	गिदिग्रा दाउ जिबसा आरो बेराम	आबहावा गेब्रेनाय जौनि समाज्जि जैना

### मावफारि आरो फालिथाइ सान

22-30 जुन: नैथि फरा हान्जा सुमोनथाइ खालार थि खालामगोन। बिनि उननि हाबथायाव फरायसा-फरायसुलिनि सुमोनथाइनि फोरमायथिखी दिथागिरिजो सावरायगोन।

नैथि हान्जा सुमोनथाइनि सौलु बिलाइफोरखी 13 जुन खालारनि गेजेराव गाहाइ फोरोंगिरिनो जमा होनांगोन।

5 जुन : (क) फुंनि आफदआव मुलुगनां आबहावा साननि गोनाथिखी फोरमायगोन। आबहावा नि बाउसि रैखाथिनि थाखाय बिफां-लाइफांनि गोनाथिनि फारसे फरायसानि गोसो बोगोन। (ख) सिगांनो थाम थियारि खालामखानाय बादियै फरायसालिनि सोरगिदि बिफां गायगोन। (ग) आबहावा सरैखा, गुबुंले जानायखी होबथानायआरि आयदायाव रनसाय लिरनाय, खन्थाइ लिरनाय, हरखाव बिबुंथि आरि खुंगोन।

20 जुन: (क) फुंनि आफदआव बिष्णु राभा नि मुसुखा/सावगारियाव बिबाव बाउगोन। (ख) मोनने पिरियद फोरोंखानायनि उनाव फरायसालियाव बिथानि जिउनि सान्थीनि सायाव सावराय मेल, मेथाइ खननाय आरिनि सर' खालामहोगोन।

21 जुन: योगा सानाव फरायसाफोरखी योगासन खालाम होगोन आरो योगा साननि गोनाथिनि सोमोन्दे जथुम खुनाइ फोरमायगोन। योगासननि गेजेरजो गोसोआरि आरो देहायारि गोहो बांहोनायजो लोगोसे आबहावा आरो सावस्वियारि दिदोमथिखी रैखा खालामनायजो लोगोसे फरायसानि सानफोरमाजि जिउवाव दावगालानाय थुलुंगा होगोन।

30 जुन: बवेखानि गोलीम बोथोरनि बन्दनि सिगां सानखालि बन्दनि समखी मोजाइ बाहायनायनि थाखाय माखासे ननि हावा, बिथानि बाइदि बाइदि खालामनो हरगोन।

### जौगा गुदि थाखो ( द 'निफ्राय थाखो दाइनसिम )

#### थाखो बादियै फरा राननाय

आयदा	द 'थि	स्निथि	दाइनथि
राव	बर 'राव आरो थुनलाइनि जागायजेननाय	बदौसा मंगलयड	गुन्देव कालिचरण ब्रह्म
सानखान्थि	बोखावखोन्दो	आखान्थि थामनि गोरोबलायानाय	बिबानि रुजुनाय
इंराजी	Uses of ICT(R)	Kindness(R)	Dokchory Learns about the Panchayat(R)
बिगियान	देहानि लोरसोथाइ	जिबनि हांलानाय	लाइमोन बेसो मोननाय
समाज बिगियान	जौगाखो जिउनि गोनाथिफोर सुबुं खुंथाइ आरो बेनि खान्थिफोर	सम्मद गेजेर मुगाथाव भारतबवं	भारती जिबिजि फालिथाइ आरो इतर 'थारि फालिगिरि-भोरनि भारतआव इबकेनाय आरोआव इंराजी खुंथाइ गायसिनबद फेहरेवच आरो फोरोमथाव
हिन्दी	चलो, तेजपुर चलो	सुमन एक उपवन के	पहली बुंद

थाखो सेनिफ्राय बासिम गाहायाव होनाय मावफारिखी फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थोरफो बादियै दाननि फराजो लोगोसे सोमोन्दो लाखिना सर' खालामहो-

**सावस्रि आरो देहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दे मावफारि ।**

- दिदोमथि लाखिनाय ब्याम खालामगोन।
- जानायनि सिगां आरो जानायनि उनाव साबोनजो आखाइ सुनायनि सर' खालामनाय।

**आरिमु आरो सिल्प सोलोंथाइ सोमोन्दे मावफारि**

- हा आरो लेखा बिलाइजो ना बानायगोन।
- गारनाय मुवा जेरे- गाबनि थिभि, प्लाष्टिकनि बथ 'ल, मग, काप आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरजो ताव थियारि खालामना बिबाव फुलि गायनाय।

थाखो सान-	25
रबिबार-	4
गुबुन बन्द सान-	1
गासै सान-	30
(दाननि फालिथाइ सान -3)	

थाखो द 'निफ्राय दाइनसिम गाहायाव होनाय मावफारिखी फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थोरफो बादियै दाननि फराजो लोगोसे सोमोन्दो लाखिना सर' खालामहो-

**हाबा सोलोंथाइ सोमोन्दे मावफारि**

- औवानि हाबा : गिसिब, संग्राइ, एम, स्केल, बेरा बायदि बानायगोन।
- सुथाबनाय हाबा : रुमाल, बुटाम, टेबुल क्लथ, बथानि खोबग्रा, बायदि जिनि बेग बानायनो सोलोंगोन।

**सावस्रि आरो देहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दे मावफारि**

- फुटबल, काबादी, खो-खो, गोलाव बारनाय, गौजी बारनाय बायदि गेलेगोन।
- जानायनि सिगां आरो जानायनि उनाव साबोनजो आखाइ सुनायनि सर' खालामनाय।

**आरिमु सोलोंथाइ सोमोन्दे मावफारि**

गाबगोनां लेखा बिलाइजो कलाज बानायगोन।



- फोरोंगिरिया मोनफोरमो थाखोनि मोनफोरमो आयदनि मिजिथिनाय फोरोंनाय फिथाइ बादियै फोरोंनाय बिखानि सामलावनांगोन।
- जुनियारै हानाय गथ 'सानि थाखाय फोरोंगिरिया फराफोरखी बिसेरनि गोरोबनाय बादियै थियारि खालामना फोरोंगोन।
- न' एवा फरायसालि साखोन-सिखोन खालामना लाखिनायजो लोगोसे खाथिखाला ओन्सोल आरो सोरगिदि साखोन-सिखोन लाखिनायनि बिबान गुबुनजो लोगोसे फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरको फालिगोन।
- लामायाव थाबावनाय एवा बारनायाव गावनो सांग्रां जानायजो लोगोसे गथ 'सा, बोराइ आरो जुनिया जोथोन लानो गोनां सुबुंनो हेफाजाव होनाया जौनि बिबान आरो मावनां।
- फरायसालिनि सावस्रि खान्थिनि सोमोन्दो जोथोन लानो थाखाय फरायसा संसद एवा गौधुमनिफ्राय सासे एवा सासेनि बांसिन फरायसालि सोद्रोमा थिसन, जेराव फरायसालिनि साखोन सिखोना सरैखा जाना थयो। बे बिथिजाव फरायसा सोद्रोमाखी सम सम सोलाय-सोल' खालाम।



• 2020 सोलोंथाइ फोरोंगिरिया खाखो निमिचि चर अतो बाखो 'न' निफ्राय राउन बाखोसिचि सानखान्थि आरो इरुनि अयदनि गोदरा फरायसालिनाय बाहायनाय जगोन।  
 • सोलोंथाइयारि फानजामुथिनाय दान बादियै फरा राननाय दइबको मेनफोरमोको फोन्दो सानेबादनि सोमोन्दे अयदरबादियै फिदावय फराफोरखी फोरोंगिरिया गाबनि खान्थि फोरोंगोनो।  
 • नुन रावनाय जगनाय बाखो साननि अनिज्या  कागदुसाव निर । जुदि बे बिबाराय सार 'नाय साननिफुडको चर जको अल्ला फोरोंगिरिया गाबनि खान्थि बाखो सान्थी अर्धु खालामनोमे।